

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 सितम्बर 2015—भाद्र 23, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्र. बी-बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2, दिनांक 15 मई 2015 द्वारा मौसम खरीफ, वर्ष 2015 जिला भोपाल पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना जारी की गई थी. अतः जिला भोपाल के संलग्न सूची के अनुसार पटवारी हल्का में से धान सिंचित, बाजरा एवं सोयाबीन फसलों का क्षेत्रफल 100 हेक्टर से कम होने पर संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

मौसम खरीफ, वर्ष 2015-16

राजपत्र में प्रकाशित भोपाल जिले की सूची क्रमांक 185, दिनांक 15 मई 2015 निम्नानुसार पटवारी हल्कों में धान, बाजरा एवं सोयाबीन फसलों का क्षेत्रफल 100 हेक्टर से कम होने पर प्रकाशन हेतु पटवारी हल्कावार संशोधित सूची :-

क्र.	जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	प.ह.न. का नाम	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	बाजरा	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	भोपाल	बैरसिया	नजीराबाद	1	सूरजपुरा	धान सिंचित हटाना है.	-	-	-	-	100 हे. से कम होने पर.
2	—	—	—	4	कोलूखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	100 हे. से कम होने पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	भोपाल	बैरसिया	नजीराबाद	5	खड़रिया	-	-	-	-	बाजरा	100 हे. से कम होने पर.
4	—''—	—''—	—''—	1	सूरजपुरा	-	-	-	-	—''—	
				2	खाताखेड़ी	-	-	-	-	—''—	
				3	मजीदगढ़	-	-	-	-	—''—	
				4	कोलूखेड़ी	-	-	-	-	—''—	
				5	कोलूखेड़ी	-	-	-	-	—''—	
				6	बीलखो	-	-	-	-	—''—	
				7	बदरूआ	-	-	-	-	—''—	
				8	गुजरतोड़ी	-	-	-	-	—''—	
				9	नायसमद	-	-	-	-	—''—	
				10	कढ़ैयाकोटा	-	-	-	-	—''—	
				11	गढ़ाकलां	-	-	-	-	—''—	
				12	गढ़खुर्द	-	-	-	-	—''—	
				13	भुजपुरा कलां	-	-	-	-	—''—	
				14	खजूरिया कलां	-	-	-	-	—''—	
				15	कढ़ैयाकलां	-	-	-	-	—''—	
				16	रमाहा	-	-	-	-	—''—	
				17	सिंघौड़ा	-	-	-	-	—''—	
				18	खेजड़ाघाट	-	-	-	-	—''—	
				19	नजीराबाद	-	-	-	-	—''—	
				20	बडवेली कलां	-	-	-	-	—''—	
				21	बेहरावल	-	-	-	-	—''—	
5	भोपाल	बैरसिया		35	सेमरा भरोपुरा	-	-	-	-	—''—	
				36	कढ़ैया चवर	-	-	-	-	—''—	
				37	दौलतपुरा	-	-	-	-	—''—	
				38	ललोई	-	-	-	-	—''—	
				42	तरावलीकलां	-	-	-	-	—''—	
				43	सोनकच्छ	-	-	-	-	—''—	
				44	बरखेड़ा कलां	-	-	-	-	—''—	
				45	बरोड़ी	-	-	-	-	—''—	
				46	गरेतिया दांगी	-	-	-	-	—''—	
				47	सेमराकलां	-	-	-	-	—''—	
				48	खजूरिया रामदास-	-	-	-	-	—''—	
				49	भैसोदा	-	-	-	-	—''—	
				50	नलखेड़ा	-	-	-	-	—''—	
6	भोपाल	हूजूर	फन्दा	71	कोलूखेड़ी	-	-	सोयाबीन	-	-	100 हे. से कम होने पर.
7	—''—	—''—	रातीबड़	58	बैरागढ़ चीचली	-	-	सोयाबीन	-	-	100 हे. से कम होने पर.